

To,
The Secretary – Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051

Date: 16th November, 2022

Ref: Scrip Code/Symbol: UNIINFO

Sub: Submission of Newspaper Clipping for the extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2022 under regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company has published extract of Un-Audited Financial Results for the quarter ended 30th September, 2022. We herewith enclose the Newspaper Advertisement published on 16.11.2022 in Business Standard English Newspaper and Business Standard Hindi Newspaper.

Kindly take the same on your records and oblige.

Thanking you,

For Uniinfo Telecom Services Limited

Astha Jain

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: Clippings of Newspaper Advertisement

pnb Housing Finance Limited
 Regd. Office : 9th Floor, Antriksh Bhawan, 22, K.G. Marg, New Delhi-110001
 Phones : 011-23357171, 23357172, 23705414. Website : www.pnbhousing.com
 BRANCH ADDRESS : 201-A & 202, 2nd Floor, Megapolis Building, 579, MG Road, Indore, Madhya Pradesh 452001, E-Mail: indore@pnbhousing.com

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTIES)

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the PNB Housing Finance Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & in compliance of Rule 8(1) of Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued demand notices on the date mentioned against each account calling upon the respective borrowers to repay the amount as mentioned against each account within 60 days from the date of receipt of the said notices.

The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against each account.

The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealing with the properties will be subject to the charge of PNB Housing Finance Ltd., for the amount and interest thereon as per loan agreement. The borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

S. No.	Loan Account No.	Name of the Borrower/Co-Borrower/Guarantor	Date of Demand Notice	Amount Outstanding	Date of Possession Taken	Description of the Property Mortgaged
1.	HOU/IND/0816313452 B.O.: Indore	Sanjay Rohida, Rakhi Rohida	02-05-2019	Rs. 1891525.42 (Rupees Eighteen Lacs Ninety One Thousand Five Hundred Twenty Five and Paise Four Two Only)	10-11-2022 (Physical)	All that part and parcel of property of East part of Plot No. 224, Sai Paradise, Gram Nihalpur, Mundi, Indore, Madhya Pradesh, India, 452001

PLACE : INDORE
 DATE :- 15-11-2022

AUTHORIZED OFFICER,
 PNB HOUSING FINANCE LTD.

यूको बैंक UCO BANK
 (भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
 Balaghat Branch : Station Road, Balaghat (M.P.)-481001

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) RULE 8 (1)

Whereas, The authorized officer of UCO Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of power conferred under 13(12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) rules 2002, issued a demand notice dated 21.07.2022 calling upon the below mentioned borrowers & Guarantors to repay the amount mentioned in the notice and interest thereon with in 60 days from the date receipt of the said notice.

The borrowers & /or guarantors having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned, being the Authorized officer of Uco Bank has taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this 11th day of November of the year 2022.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property will be subject to the charge of the UCO Bank, Balaghat for an amount mentioned below & interest & other charges thereon.

The borrowers & /or guarantors attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Sec 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name & Address of Borrower	Description of Property & Property Owner	Amount Outstanding
Borrower : Shri Kewal Nageshwar S/o Laxmichand Nageshwar and Shri Laxmichand Nageshwar S/o Shri Soma Nageshwar	All that part and parcel of the property situated at Ward No 04 Shanti Nagar, PC No 13/2, RNM Balaghat, Kharsa No 222/1/Jha Plot Area 1440 Sq Ft Baihar Road Tehsil Balaghat District Balaghat M.P., Bounded at Present : North : Land of Mani Bai, South : Road, East : House of Prakash Singh Thakur, West by : Road	as on 29.06.2022 ₹ 859977.27 (inclusive of interest upto 28.02.2022) + Infl. & other charges

Place : 11.11.2022, Balaghat
 Authorized Officer, UCO Bank

Advertisement No. - 125/2022

Government of India
 Public Enterprises Selection Board
 invites applications for the post of

Chairman
 in
Steel Authority of India Limited

Last date of receipt of applications in
 PESB is by **15.00 hours on**
18th January, 2023

For details login to website
<http://www.pesb.gov.in>

UNIINFO TELECOM SERVICES LIMITED
 CIN : L64202MP2010PLC024569
 Registered office : 403, Chetak Centre, 12/2 RNT Marg, Indore (M.P.) - 452001, Contact No. : 0731-4208091
 Email Id: compliance@uni-info.co.in. Website : www.uni-info.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

S. No.	Particulars	3 Months Ended 30.09.2022		6 Months Ended 30.09.2022		Year Ended 31.03.2022	
		Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
1	Total Income from Operations	800.05	1016.18	1613.94	2086.31	4165.70	
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(49.39)	(37.32)	(44.55)	(437.43)	(425.20)	
3	Net Profit/ (Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(49.39)	(37.32)	(44.55)	(437.43)	(425.20)	
4	Net Profit/ (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(48.16)	(37.32)	(41.30)	(437.43)	(284.76)	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (after tax)	(51.83)	(37.32)	(22.08)	(437.43)	(264.05)	
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-)	1069.31	1069.31	1069.31	1069.31	1069.31	
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic:	(0.45)	(0.35)	(0.39)	(4.09)	(2.47)	
	2. Diluted:	(0.45)	(0.35)	(0.39)	(4.09)	(2.47)	

Notes : 1. Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI LODR

S. No.	Particulars	3 Months Ended 30.09.2022	3 Months Ended 30.09.2021	6 Months Ended 30.09.2022	6 Months Ended 30.09.2021	Year Ended 31.03.2022
1	Turnover	801.16	950.53	1616.26	1922.19	3990.39
2	Profit before Tax	(31.40)	(0.94)	(7.75)	(352.64)	(287.97)
3	Profit After Tax	(30.18)	(0.94)	(4.50)	(352.64)	(147.53)

Notes : 2. The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.sebiindia.com and on the company website www.uni-info.co.in

3. The above Un-Audited Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14 November, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors
 SD/- (KISHORE KUMAR BHURADIA)
 CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
 DIN : 03257228

Place : Indore (M.P.)
 Date :- 14.11.2022

(Under Corporate Insolvency Resolution Process initiated by order of Hon'ble NCLT dated 29.05.2020)
 CIN: L15143MP1991PLC006395 | Registered Office: Office Hall No.1, 1st Floor, Metro Plaza, Bittan Market, Bhopal (M.P.) - 462016 | Telephone: +91-755-4294878 Fax: +91-755-4295038
 Website: www.sanwariacustomer.com, Email Id: compliance@sanwariacustomer.com

SANWARIA CONSUMER LIMITED

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR PERIOD ENDED ON 30TH SEPTEMBER 2022

Particulars	Standalone (Rs. In Lacs)				Consolidated	
	Quarter ended		Year Ended		Period Ended	Year Ended
	30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2021	31.03.2022	31.03.2022
1. Revenue from operations	28.65	26.60	26.60	55.25	53.89	109.55
2. Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax Exceptional and/or Extraordinary items)	-109.33	-137.29	-166.29	-246.62	-347.79	-662.88
3. Net Profit / (Loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	-109.33	-137.29	-166.29	-246.62	-347.79	-662.88
4. Net Profit / (Loss) for the period after Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	-109.33	-137.29	-166.29	-246.62	-347.79	-673.42
5. Total Comprehensive Income for their period (comprising Profit/Loss) for their period (after tax) and other comprehensive income (after Tax)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 1 Each)	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00	7361.00
7. Reserve Excluding Revaluation Reserves (As Shown in the audited Balance Sheet of Previous Year)	-	-	-	-68965.05	-68940.12	-69089.52
8. Earnings Per Share (after extraordinary items)						
(a) Basic	-	-	-	-	-	-
(b) Diluted	-	-	-	-	-	-

Notes: (1) The Above Un-audited Results were reviewed by Audit Committee (headed by Independent Director) and taken on records at the meeting with Board of Directors (Suspendendi) held on 14.11.2022. (2) Figures are re-arranged and re-grouped wherever found necessary. (3) The Company is under CIRP since 29th May 2020 hence Commercial activities, specifically warehousing, leasing and job work are going on at Limited permitted level under the Resolution Professional and Committee of Creditors. (4) The Company is engaged in FMCG Sector hence reporting its results in single segment. (5) The Un-audited Financial Results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013

Place: Bhopal | Date: 14.11.2022

MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD.
 Corporate Office: Sathana House, 2nd Floor, 570, P.B.Marg, Worli, Mumbai 400 018, India. Tel: 022 66523500. Fax : +91 22 24972741, CIN - U65922MH2007PLC169791 Regional Office: 7 A Patil Complex, 1st Floor, Near Main S.T. Bus Stand, Ganeshpath, Nagpur-440009

PUBLIC NOTICE FOR AUCTION CUM SALE

Pursuant to taking possession of the secured asset mentioned hereunder by the Authorized Officer of MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD. in exercise of powers conferred under section 13 (4) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 for the recovery of amount due from borrower/s, offers are invited by the undersigned in sealed covers for purchase of immovable property, as described hereunder, which is in the physical possession, on "As Is Where Is Basis", "As Is What Is Basis" and "Whatever Is There is Basis", Particulars of which are given below:-

Name of Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property (Secured Assets)	Reserve Price	Earnest Money
BORROWER : Ajay Wasudeorao Gatkine, CO-BORROWER : Chandrakata Wasudeo Gatkine BRR ADD :- Plot no.512, Mahendra Nagar, Rani Durgawati Chowk, Kadwe niwas, Nagpur (MH) 440017 & also at Mouza Wanjra PHN 17, Gaili no.12, Sheet no.837/62, Nagpur Bhumapan no.414, Kharsa no.74/2, Plot no. 120, Nagpur Total land area 840 sq.ft. four boundaries as follows East- Road West-Plot no.99 North-Khasraboundary South-Plot no.119 LAN: 1134927-XSEMAG00918754-Nagpur	Demand Notice Date: 04-10-2021 Rs. 9,38,089/- (Rupees Nine Lakhs Thirty Eight Thousand and Eighty Nine only) Date of Physical Possession : 24-08-2022	All that part and parcel of complete property Mouza Wanjra PHN 17, Gaili no.12, Sheet no.837/62, Nagpur Bhumapan no.414, Kharsa no.74/2, Plot no. 120, Nagpur Total land area 840 sq.ft. four boundaries as follows East- Road West-Plot no.99 North- Khasra boundary South-Plot no.119	Rs. 17,46,000/- (Rupees Seventeen Lakh forty six thousand Only)	Rs. 1,74,600 (Rupees One Lakh seventy four thousand six hundred Only) Bid Increase Rs 10000/-

(1) Last Date of Submission of Sealed Bid/Offer in the prescribed tender forms along with EMD and KYC in 21-12-2022 till 5 PM at the Regional Office address mentioned herein above. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD. (2) Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 22-12-2022 between 11 AM to 1 PM at the above mentioned office address. The tender will be opened in the presence of the Authorized Officer. (3) Date of inspection of the immovable property is 03-12-2022 2PM to 5 PM

Name of Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property (Secured Assets)	Reserve Price	Earnest Money
BORROWER : Santosh Kisan Nikam, CO-BORROWER : Dwarka Santosh Nikam BRR ADD :- Turkey Complex, behind Punjab National Bank, Pusaad Naka, Kajdamba, Taluka & Dist. Washim & also at House No.129, at Kharola, Post Kajdamba, Dist. Washim Total built up area 1813.06 sq. ft. four boundaries as follows East-Nikhantha Thakre West-Road North-House of Mahdev Nikam South- House of Manik Thakre LAN: XSEMWSM00283043-30930-Washim	Demand Notice Date: 22/09/2021 Rs. 6,43,479/- (Rupees Six Lakhs Forty Three Thousand Four Hundred and Seventy Nine only) Date of Physical Possession : 12-10-2022	All that part and parcel of complete property with construction thereon House No.129, at Kharola, Post Kajdamba, Dist. Washim Total built up area 1813.06 sq. ft. four boundaries as follows East-Nikhantha Thakre West- Road North-House of Mahdev Nikam South- House of Manik Thakre	Rs 24,48,766/- (Rupees Twenty Four Lakhs Forty Eight thousand Seven Hundred Sixty Six Only)	Rs 2,44,877/- (rupees Two Lakhs Forty Four Thousand Eight Hundred Seventy Seven Only) Bid Increase Rs 10000/-

(1) Last Date of Submission of Sealed Bid/Offer in the prescribed tender forms along with EMD and KYC in 21-12-2022 till 5 PM at the Regional Office address mentioned herein above. Tenders that are not filled up or tenders received beyond last date will be considered as invalid tender and shall accordingly be rejected. No interest shall be paid on the EMD. (2) Date of Opening of the Bid/Offer (Auction Date) for Property is 22-12-2022 between 11 AM to 1 PM at the above mentioned office address. The tender will be opened in the presence of the Authorized Officer. (3) Date of inspection of the immovable property is 01-12-2022 2PM to 5 PM

(1) This is 30 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002 is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Co-Borrower (s) and Guarantor (s) that the above described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Possession of which has been taken by the Authorized Officer of MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD. (MRHFL) Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" and to the amount due to MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD., in full before the date of sale, auction is deemed to be stopped. (2) The immovable property will be sold to the highest tenderer. However, the Authorized Officer reserves the absolute discretion to allow inter se bidding, if deemed necessary. The Property as mentioned will not be sold below Reserve Price (3) MRHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the property as mentioned above. The Property shall be auctioned on "As is where is Basis", "As is what is Basis", and "Whatever there is Basis" (4) The Demand Draft should be made in favor of MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD. Only. (5) The detail terms and conditions of the auction sale are incorporated in the prescribed tender form. Tender forms are available at the above mentioned Branch office. Authorized officer reserve the rights to extend the date of tender or change the terms & conditions of bidding. For further details & other terms & conditions of bidding please visit our Office Address and website www.mahindraruralhousingfinance.com For further details, contact the Authorized Officer Mr. Dharmendra Rewatkar (Mobile No. 9822473534) and the above mentioned Office address.

Place: Nagpur, Washim | Date : 16-11-2022 | Sd/- Authorized Officer (Mahindra Rural Housing Finance Ltd.)

ALPA LABORATORIES LIMITED
 CIN: L85195MP1988PLC004446
 33/2 A B Road Pigdambar Rau, Indore -453446 Tel. No. 0731-4294567 Fax No. 0731-4294444 Website : www.alpalabs.in.

Extracts of Financial Results for the Quarter and Half Ended 30.09.2022

S. No.	Particulars	Standalone (Rs. In Lacs except EPS) unless otherwise stated				Consolidated Result (Rs. In Lacs except EPS)	
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	Year Ended
		30.09.2022	30.06.2022	30.09.2021	30.09.2021	31.03.2022	31.03.2021
1	Total Income from Operations (Net)	1991.99	2403.38	2895.29	4395.37	6473.33	12304.31
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	19.94	265.90	574.62	285.84	1219.56	1956.21
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional and/or Extraordinary Items)	19.94	265.90	574.62	285.84	1219.56	1956.21
4	Net Profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	19.94	265.90	574.62	285.84	1219.56	1409.18
5	Total Comprehensive Income for the period	20.22	266.32	574.70	286.54	1220.13	1402.57
6	Equity Share Capital	2104.06	2104.06	2104.06	2104.06	2104.06	2104.06
7	Reserves (Excluding Revaluation reserves as per Balance Sheet) as shown in the Audited Balance Sheet of Previous Year	-	-	-	-	-	-
8	Earning per share before and after extra ordinary items (Face Value of Rs. 10 Each) BASIC EPS	0.10	1.27	2.73	1.36	5.80	6.67
9	Earning per share before and after extra ordinary items (Face Value of Rs. 10 Each) DILUTED EPS	0.10	1.27	2.73	1.36	5.80	6.67

Notes : a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Full Format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange Websites WWW.BSEINDIA.COM AND WWW.NSEINDIA.COM. The same may also be accessed on WWW.ALPALABS.IN

b) The impact on net profit/loss total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change in accounting policies shall be disclosed by means of foot note

c) Some of the figures have been regrouped/reclassified as per the IND AS Applicability.

For Alpa Laboratories Limited
 Mahendra Singh Chawla - Director
 Din No. 00362058

Place : Pigdambar, Rau
 Date: 14th November, 2022

TTI Enterprise Ltd
 CIN NO.L67120WB1981PLC033771
 Address: 1 R.N Mukherjee Road, Martin Burn House, 4th Floor, Suite No.22, Kolkata-700001, E-mail - tti711@gmail.com

(Extract of Standalone Un-audited Financial Result for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2022)

Sr.	Particulars	Quarter ended				Half year ended		Year ended
		30.09.2022		30.06.2022		30.09.2021		
		Un-audited	Audited	Un-audited	Audited	Un-audited	Audited	
1.	Total income from operations	70.53	147.6	186.78	218.13	723.12	1439.55	
2.	Net Profit/ (Loss) from Ordinary Activities before exceptional items and Tax	22.94	-13.5	12.79	9.44	70.96	-6.22	
3.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	-	-	-	-	-	-	
4.	No. of Equity Share	2540.44	2540.44	2540.44	2540.44	2540.44	2540.44	
5.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the balance sheet of previous year)	0	0	0	0	0	0	
6.	Earning Per Share (of ₹10/-each) Basic Diluted	0.09	-0.05	0.05	0.04	0.28	0.02	

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

TTI ENTERPRISES LIMITED
 Sd/- MRIDULA MUKUNDAN Director
 DIN:08242853

Place: Kolkata
 Date: 15/11/2022

KAIROS PROPERTY MANAGERS PRIVATE LIMITED
 REGD. OFFICE : 4th Floor, A-401, 402, Delphi A, Orchard Avenue, Powai, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400076
 Website: www.kairosproperty.co.in, Tel : +91-124-3821400, Email : kairos.legal@brookfield.com

UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2022

Particulars	For the quarter ended 30 September 2022 (INR million)		For the quarter ended 30 September 2021 (INR million)		For half year ended 30 September 2022 (INR million)		For half year ended 30 September 2021 (INR million)		For the year ended 31 March 2022 (INR million)	
	STANDALONE		STANDALONE		STANDALONE		STANDALONE		STANDALONE	
	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED	UNAUDITED	AUDITED
1. Total income from Operations	72.61	64.72	55.07	137.33	113.97	244.02				
2. Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(293.46)	(524.54)	(405.20)	(818.00)	(767.75)	(1,833.02)				
3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(293.46)	(524.54)	(405.20)	(818.00)	(767.75)	(1,833.02)				
4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(368.04)	(524.54)	(409.33)	(892.58)	(771.88)	(1,836.26)				
5. Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(367.63)	(524.39)	(409.31)	(892.02)	(771.84)	(1,835.92)				
6. Paid-up equity share capital (Face value INR 10 per share)	97.59	97.59	97.59	97.59	97.59	97.59				
7. Reserves (excluding Revaluation reserve)	(6,212.26)	(5,844.63)	(4,256.18)	(6,212.26)	(4,256.18)	(5,320.24)				
8. Securities Premium Account	877.41	877.41	877.41	877.41	877.41	877.41				
9. Net Worth	(6,114.67)	(5,747.04)	(4,							



संक्षेप में

एचडीएफसी 5,500 करोड़ रुपये जुटाएगी

आवासीय ऋण प्रदाता एचडीएफसी लिमिटेड निजी आवंटन के आधार पर बॉन्ड जारी कर 5,500 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाएगी। कंपनी ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा कि गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति (एनसीडी) वाले बॉन्ड का बुनियादी आकार 4,000 करोड़ रुपये होगा और 1,500 करोड़ रुपये तक की अधिक खरीद का विकल्प भी रहेगा। बॉन्ड निर्गम 17 नवंबर को खुलेगा और उसी दिन बंद होगा।

14वें इन्फोसिस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा

इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन (आईएसएफ) ने मंगलवार को छह श्रेणियों में इन्फोसिस प्राइज 2022 के विजेताओं की घोषणा की। इन श्रेणियों में इंजीनियरिंग ऐंड कम्प्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजीकल साइंसेज और सोशल साइंसेज शामिल हैं। प्रत्येक श्रेणी के पुरस्कार में स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, और 100,000 डॉलर की पुरस्कार राशि शामिल है।

फर्मा ने झेले नए प्रकार के आर्थिक अपराध

पिछले दो साल के दौरान 50 फीसदी से अधिक भारतीय फर्मा को आर्थिक अपराधों का सामना करना पड़ा है। इनमें से 95 फीसदी मामले नई तरह की धोखाधड़ी के हैं।

विज्ञापन संख्या - 125 / 2022

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
में
अध्यक्ष

पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की
अंतिम तिथि 18 जनवरी, 2023 (15.00 बजे तक) है।

जानकारी के लिए वेबसाइट
<http://www.pesb.gov.in>
में लॉग इन करें।

pnb Housing Finance Limited

कच्चा सूचना (अवल सम्पत्ति के लिये)

पंजीकृत कार्यालय: 9वां तल, अन्तरीस भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट: www.pnbhousing.com

शाखा पता: एनजी रोड, 201, दूसरा तल, मेगापॉलीस भवन सं. 579, महात्मा गांधी मार्ग, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001, ई-मेल: indore@pnbhousing.com

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उपारखला/साह उपारखला/गारंटर के नाम	मांग सूचना की तिथि	वकाया राशि	कच्चा प्राप्त करने की तिथि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
1.	HOU/IND/0816/313452	संजय सोहिया, राखी सोहिया	12.05.2019	₹. 18,91,525.42/- (रुपये अठारह लाख इय्यायाने हजार पांच सौ चत्तरस और ब्यालीस पचास मात्र)	10.11.2022 (भांति)	प्लॉट सं. 224 का पूर्ण भाग, साईं पैरवाड़ा, ग्राम शिवालय मंडी, इंदौर, मध्य प्रदेश - भारत 452001 की संपत्ति का संपूर्ण स्वामीगण भाग।

प्रारक्षक अधिकारी,
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

यूनिइन्फो टेलीकॉम सर्विसेस लिमिटेड

सीआईएन: L64202MP2010PLC024569

पंजीकृत कार्यालय: 403, चेतक सेंटर, 12/2 आरएनटी मार्ग, इंदौर (म.प्र.)-452001, फोन नं. 0731-4208091
ईमेल आईडी: compliance@uni-info.co.in, वेबसाइट: www.uni-info.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTHS ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

(Rupees in Lakhs except EPS)

Sl. No.	Particulars	3 Months Ended 30.09.2022	3 Months Ended 30.09.2021	6 Months Ended 30.09.2022	6 Months Ended 30.09.2021	Year Ended 31.03.2022
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total Income from Operations	800.05	1016.18	1613.94	2086.31	4165.70
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(49.39)	(37.32)	(44.55)	(437.43)	(425.20)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(49.39)	(37.32)	(44.55)	(437.43)	(425.20)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(48.16)	(37.32)	(41.30)	(437.43)	(284.76)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and other comprehensive income (after tax)	(51.83)	(37.32)	(22.08)	(437.43)	(264.05)
6.	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/-)	1069.31	1069.31	1069.31	1069.31	1069.31
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					
1.	Basic:	(0.45)	(0.35)	(0.39)	(4.09)	(2.47)
2.	Diluted:	(0.45)	(0.35)	(0.39)	(4.09)	(2.47)

Notes: 1. Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI LODR

Sl. No.	Particulars	3 Months Ended 30.09.2022	3 Months Ended 30.09.2021	6 Months Ended 30.09.2022	6 Months Ended 30.09.2021	Year Ended 31.03.2022
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited
1.	Turnover	801.16	950.53	1616.26	1922.19	3990.39
2.	Profit before Tax	(31.40)	(0.94)	(7.75)	(352.64)	(287.97)
3.	Profit After Tax	(30.18)	(0.94)	(4.50)	(352.64)	(147.53)

Notes: 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.nseindia.com and on the company website www.uni-info.co.in

3. The above Un-Audited Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14 November, 2022.

For and on behalf of the Board of Directors
SD/- (KISHORE KUMAR BURADIA)
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR
DIN : 03257728

Place : Indore (M.P.)
Date : 14.11.2022

ईवी की बिक्री में बनी रहेगी तेजी

उत्साहित ई-स्कूटर निर्माता बिक्री के अपने पहले के अनुमानों में कर रहे हैं विस्तार

सुरजीत दास गुप्ता
मुंबई, 15 नवंबर

त्योहार सीजन में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेज वृद्धि (जो अब भी बेरोकटोक जारी है) से उत्साहित प्रमुख ई-स्कूटर निर्माता बिक्री के अपने पहले के अनुमानों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के आईसीई से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन अपनाने की गति बढ़ा रहे हैं। ओकिनावा ऑटो टेक के संस्थापक और प्रबंध निदेशक जितेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्हें वित्त वर्ष के अगले पांच महीनों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा 'हमें उम्मीद है कि उद्योग वित्त वर्ष 2023 तक 8,00,000 से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों तक पहुंच जाएगा। वित्त वर्ष 2024 में हमारी उम्मीद है कि यह संख्या दोगुनी निश्चित रूप से 16 लाख से भी अधिक होगी। उद्योग को उम्मीद थी कि वित्त वर्ष 2023 में यह लगभग 6,00,000 से 7,00,000 हो जाएगा और वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख तक पहुंच जाएगा। शर्मा का कहना है कि दोपहिया वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक तकनीक अब परिपक्व हो गई है, यहां तक कि वे समझ गए हैं कि ग्राहकों की आवश्यकता के क्षेत्र क्या है। ग्राहकों को उन लाभों की भी आदत हो रही है जो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को चलाने की लागत में बचत के रूप में सामने आती है। कोरोना महामारी से पहले दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 1 फीसदी से भी कम थी जो अब 4-5 फीसदी हो गई है। ओकिनावा के शर्मा को उम्मीद है



कि यह इस कैलेंडर वर्ष (जनवरी से नवंबर) में इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री 1 लाख तक पहुंच जाएगी। अक्टूबर में हुई बिक्री के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। अक्टूबर में उन्होंने 14,900 से अधिक वाहन बेचे थे। आज (वाहन के आंकड़ों के आधार पर) वे उस जादुई संख्या से सिर्फ 8,000 वाहन दूर हैं। दौड़ में अन्य लोगों में हीरो इलेक्ट्रिक (जिसने अक्टूबर में 84,891 वाहनों का पंजीकरण किया है) और ओला इलेक्ट्रिक (अक्टूबर में 81,830 पंजीकृत) शामिल हैं। ग्रीक्स कंटेंट जो एम्पीयर इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड का मालिक है और बाजार में

बड़े भागीदार कैसे देखते हैं बाजार ?

- ओकिनावा को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2023 तक बाजार 8,00,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों तक पहुंच जाएगा
- कैलेंडर वर्ष 2022 में नवंबर के अंत तक 1 लाख ई-दोपहिया वाहनों की बिक्री करने की तैयारी
- एम्पीयर को उम्मीद है कि एक साल पहले 35 फीसदी आईसीई स्कूटरों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा
- दोनों कंपनियों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में इलेक्ट्रिक दोपहिया की बिक्री 15 से 16 लाख तक पहुंच जाएगी

सवाल जवाब

कच्चे माल के लिए चीन से इतर स्रोत की तलाश

बायोकॉन के जेनेरिक और एक्टिव फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) कारोबार ने वित्त वर्ष 23 की दूसरी तिमाही के दौरान सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी के कुल समेकित कारोबार में जेनेरिक का योगदान लगभग 26 प्रतिशत है। बायोकॉन के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ मित्तल ने सोहिनी दास के साथ इस कारोबार को आगे बढ़ाने की अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से बात की। संपादित अंश...

इन उभरते बाजारों में आगे बढ़ने की अपनी योजनाओं के बारे में बताएं ?
कई उभरते बाजारों में इंसुलिन मुख्य रूप से निविदा आधारित उत्पाद है। ये बाजार पिछले कुछ सालों से बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि न केवल इंसुलिन में, बल्कि गैर-इंसुलिन उत्पादों में भी वृद्धि जारी रहेगी। गैर-इंसुलिन उत्पादों के मामले में कुछ देश निविदा पर आधारित हैं, जबकि अन्य देश खुदरा वाले हैं। खुदरा कारोबार में समय लगता है क्योंकि हमारे साझेदार को इन उत्पादों को बाजार में पेश करना होता है। निविदा कारोबार में हमें कुछ तिमाहियों में उछाल दिख रही है।



क्या बायोसिमिलर ग्लार्गिन (सेमग्ली) की भी उभरते बाजारों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है ?
मेक्सिको और मलेशिया जैसे कुछ बड़े बाजारों में हमें सेमग्ली (बायोसिमिलर इंसुलिन ग्लार्गिन) का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है। कुछ बाजार दामों के प्रति संवेदनशील हैं और सेमग्ली ह्युमन रीकोम्बिनेंट इंसुलिन की तुलना में अधिक महंगा उत्पाद है।

क्या अमेरिका में इंसुलिन ग्लार्गिन की बाजार हिस्सेदारी बढ़ने की गुंजाइश है ?
अमेरिका में अनुबंधित चक्रों के आधार पर हम सेमग्ली में लगभग 15 से 18 प्रतिशत या इससे अधिक की बाजार वृद्धि की उम्मीद है।

आईटी, कारोबार सेवा बाजार

7.4 फीसदी की वृद्धि

सौरभ लेले
नई दिल्ली, 15 नवंबर

देश के घरेलू आईटी और कारोबार सेवा बाजार ने वर्ष 2022 की पहली छमाही में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। इसे उद्यमों द्वारा डिजिटल परिवर्तन में निवेश के बढ़ावा मिला है। इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (आईडीसी) ने यह जानकारी दी है। जनवरी और जून 2022 के बीच देश में आईटी और कारोबार बाजार का मूल्यांकन 7.15 अरब डॉलर था। आईटी सेवा बाजार, जिसमें कुल आईटी और कारोबार सेवाओं का 78.5 प्रतिशत हिस्सा शामिल रहता है, वर्ष 2022 की पहली छमाही के दौरान 8.1 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ा, जो वर्ष 2021 की पहली छमाही में 7.3 प्रतिशत था। इसके अलावा आईटीसी के अनुसार, आईटी और कारोबार सेवाओं का बाजार अपने केले सालों में मजबूत वृद्धि दर्ज करने वाला है क्योंकि उम्मीद है कि उद्यम अपने डिजिटल परिवर्तन में निवेश जारी रखेंगे और आर्थिक मंदी की वजह से काफी असर का सामना नहीं करेंगे। आईटीसी इंडिया के वरिष्ठ बाजार विश्लेषक (आईटी सेवा) हरीश कृष्णकुमार ने कहा कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट और रूस-यूक्रेन संघर्ष के बावजूद भारतीय आईटी सेवा बाजार ने मजबूत वृद्धि दर्ज की क्योंकि उद्यमों ने लचीलेपन में सुधार, ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि, उत्पाद विकास में तेजी लाने आदि के लिए अपने आईटी सेवा के निवेश में इजाफा जारी रखा। आईटीसी के वर्ल्डवाइड सेमी-एनअल सर्विसेज ट्रैकर के अनुसार आईटी और कारोबार सेवा बाजार वर्ष 2021 और 2026 के बीच 8.3 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2026 के अंत तक 20.5 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। कृष्णकुमार ने कहा कि डिजिटल परिवर्तन की पहल के अलावा वैकल्पिक खर्च में भी वृद्धि हुई है क्योंकि महामारी के कारण रुका हुआ आईटी निवेश फिर से शुरू हो गया है। क्लाउड में निवेश बढ़ने की वजह से उद्यम भी बेहतर निर्णय तथा आईटी सुरक्षा के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई/एमएल में निवेश जारी रखे हुए हैं।

ओएनजीसी का शुद्ध लाभ घटा

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी ओएनजीसी का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 30 प्रतिशत घटकर 12,825.99 करोड़ रुपये रह गया। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा कि एक साल पहले में कहा कि एक समान तिमाही में उसने 18,347.73 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। वहीं अश्ल-जून की तिमाही की तुलना में अश्ल-जून की तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 15.6 प्रतिशत गिर गया। ओएनजीसी के लाभ में आई गिरावट के पीछे घरेलू अप्रत्याशित लाभ कर की अहम भूमिका रही है। इस कर की वजह से कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल एवं गैस के दाम में हुई बढ़ोतरी का उतना लाभ नहीं मिल पाया। ओएनजीसी की निदेशक (वित्त) पोमिला जसपाल ने एक निवेशक चर्चा में कहा कि बीती तिमाही में कंपनी ने विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के तौर पर सरकार को 6,400 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

श्रीराम प्रॉपर्टीज को 19.59 करोड़ का लाभ

रियल एस्टेट फर्म श्रीराम प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ 19.59 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई सूचना में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसे 23.27 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी की कुल आय करीब तिगुनी होकर 275.83 करोड़ रुपये हो गई जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 94.23 करोड़ रुपये रही थी।

शोभा लिमिटेड का मुनाफा 70 प्रतिशत घटा

रियल्टी फर्म शोभा लिमिटेड का समेकित शुद्ध लाभ जुलाई-सितंबर 2022 की तिमाही में 70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19.2 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने मंगलवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 63.1 करोड़ रुपये रहा था।

एयर इंडिया पर अमेरिका में जुर्माना

अमेरिकी सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान उड़ानों के रह होने या उनके कार्यक्रम में बदलाव से प्रभावित यात्रियों को टिकट के नुकसान को दूर करने के लिए एयर इंडिया पर 14 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया है। अमेरिकी परिवहन विभाग ने सोमवार को कहा कि एयर इंडिया उन छह एयरलाइंस में शामिल है जिन्हें यात्रियों को रिफंड के रूप में कुल 60 करोड़ डॉलर लौटाने का निर्देश दिया गया है। एयर इंडिया को भी 12.15 करोड़ डॉलर लौटाने को कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि कहा कि एयर इंडिया का यात्रियों के 'अनुरोध पर रिफंड' करने का प्रावधान अमेरिकी परिवहन विभाग की नीतियों का विरोधाभासी है।